



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2012 पौष 21, 1933

No. 50]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2012/PAUSA 21, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2012

का.आ. 59(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भूमिगत रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 26 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का आ 790(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2011 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट चेन्नई महानगर के संबंध में मेट्रो संरेखण को उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़ा था ।

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि चेन्नई महानगर के संबंध में मेट्रो रेल के संनिर्माण और अनुसूचना के लिए ऐसे मेट्रो संरेखण को परिवर्तित करना आवश्यक है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चेन्नई महानगर के संबंध में मेट्रो रेल के संनिर्माण और अनुसूचना के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मेट्रो संरेखण को निम्नलिखित शीते में परिवर्तित करती है, अर्थात् :--

चेन्नई महानगर के संबंध में मेट्रो संरेखण से संबंधित उक्त अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“चेन्नई महानगर


कॉरिडोर-1 : वाशरमनपेट-सेवन वैल्स नार्थ-प्रकासम रोड (ब्रॉडवे)-एस्पल्लेड रोड-चेन्नई सेंट्रल - कोउम नदी के आस-पार - चिंताद्रिपेट - मेडेपार्क - गवर्नमेंट एस्टेट - अन्ना सलाई - जेमिनी-अड्डयार नदी के आस-पार-चिन्नामलै जंक्शन-गुइंडी-अलांडुर-चेन्नई हवाई अड्डा ।

ओसीसी/एचव्यू नदांनम में बैकअप ओसीसी/मुख्यालय भवन (टीएएनयूवीएस मुर्गीपालन एकक)

कॉरिडोर-2 : चेन्नई सेंट्रल-परियार इवीआर सलाई के साथ-साथ - किलपाक आर्युविज्ञान महाविद्यालय-पचैप्पा महाविद्यालय-शिनाय नगर-अन्ना नगर का दूसरा एवेन्यू-अन्ना नगर राजस्थाना-तिरुमंगलम जंक्शन-जवाहर लाल नेहरू रोड - कोउम नदी के आस-पार और राष्ट्रीय राजमार्ग 4- सीएमबीटी--जवाहरलाल नेहरू रोड-मिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट-अलांदूर-सेंट थॉमस मार्गट ।

ओसीसी/डिपो : कोयम्बेडू में ओसीसी ओर डिपो (सीएमडीए मार्केट क्षेत्र) ।

CHENNAI METRO RAIL PHASE I - ROUTE MAP



[फा. सं. के-14011/10/2011-मेट्रो]

एस. रवि कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 790(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2012

S.O. 59(E).— WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development, number S.O.790(E), dated the 26th April, 2011, published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section(ii) dated the 26th April, 2011, issued under clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government added to the Schedule to the said Act the metro alignment in respect of the metropolitan city of Chennai as specified in the Schedule to that notification.

AND, WHEREAS, the Central Government is of the opinion that for the construction and maintenance of the metro railway in respect of the metropolitan city of Chennai, it is necessary to alter such metro alignment.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the said Act, the Central Government, for the construction and maintenance of the metro railway in respect of the metropolitan city of Chennai, hereby alters the metro alignment specified in the Schedule to the said Act in the following manner, namely:-

For the said Schedule relating to the metro alignment in respect of metropolitan city of Chennai, the following shall be substituted, namely:-

“The Metropolitan City of Chennai

Corridor-1: Washermanpet –Seven Wells North –Prakasam Road (Broadway) – Esplanade Road –Chennai Central – Across Cooum River – Chintadripet -- Mayday Park – Government Estate -- Anna Salai – Gemini –Crosses Adyar River – Chinnamalai junction –Guindy- Alandur –Chennai Airport


OCC/HQ : Backup OCC/Headquarters buildings at Nandanam (TANUVAS Poultry unit)

Corridor -2 : Chennai Central – Along Periyar EVR Salai – Kilpauk Medical College – Pachaiappa's College – Shenoy Nagar – 2nd Avenue of Anna Nagar – Anna Nagar Roundthana – Tirumangalam junction – Jawaharlal Nehru Road – Crosses Cooum River and NH 4 – CMBT – Jawaharlal Nehru Road – SIDCO Industrial Estate – Alandur – St. Thomas Mount.

OCC/Depot: OCC & Depot at Koyambedu (CMDA Market area).

90 9012-2

Z ←



Legend

- Corridor 1
Corridor 2
- ELEVATED STATIONS
U/G-STATIONS
DEPOT
BACKUP OCC & HQ

[F. No. K-14011/10/2011-Metro],
S RAVI KUMAR, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published vide No. S.O. 790(E), dated the 26th April, 2011.